

## CLASS - 7

## SUBJECT - 2nd language Hindi

## CHAPTER - 2

गंवई राम

### Worksheet

सार -

- प्रस्तुत कहानी एक हास्य व्यंग्य कहानी है। इसमें एक ग्रामीण व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर किया गया है। उसने कभी शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। शहर पहुंचकर वह किन मुसीबतों में फंस कर अनजाने ही उनसे कैसे बच निकलता है, यह हम प्रस्तुत पाठ में जानेंगे।
- गंवई राम का शरीर लंबा चौड़ा, काली घनी मूंछें, सफेद धोती-कुर्ता, पांव में लंबी नोक वाली चमड़े की जूतियां और हाथ में मजबूत लाठी थी। यह थी गंवई राम की वेशभूषा।
- उसके पास थोड़ी - सी खेती थी, वह भी मौसम के भरोंसे। जिससे उसके परिवार का गुजारा ना हो पाता था। उसके परिवार में 3 प्राणी थे।
- महंगाई बढ़ने के कारण उसने शहर जाकर कमाने का निश्चय किया।
- शहर पहुंचते ही वहां की चमक-दमक देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। ऊंची इमारतें, सरपट भागती मोटर कारें और भीड़-भाड़ देखकर वह हैरान हो गया।
- शहर में एक व्यक्ति उसकी लाठी से टकराकर गिर पड़ा। गंव ई राम उससे क्षमा मांगने लगा। कुछ लोग उस व्यक्ति को पकड़कर मारने लगे और गंवई राम को धन्यवाद दिया। गंवई राम को यह शहर अजीब लगा क्योंकि जिसकी लाठी से वह घायल हुआ, लोग उसे ही धन्यवाद कह रहे हैं। गंवई राम इस बात से अनजान था कि वह घायल व्यक्ति एक जेबकतरा था।
- गंवई राम को बहुत भूख लगी थी। उसने जल्द ही एक होटल में पहुंचकर वेटर को दाल, सब्जी और रोटी लाने को कहा।
- आधे घंटे से लगातार वह खाए जा रहा था। उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कि वह शहर के एक होटल में बैठ कर खा रहा है।
- वेटर पूरे 100रुप ए का बिल लेकर आया। पैसे देने के लिए ज्यों ही गंव ई राम ने जेब में हाथ डाला तो तब उसकी जेब काटी जा चुकी थी। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था।
- होटल के मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। गंवई राम के बहुत कहने-सुनने पर वह इस शर्त पर छोड़ने को राजी हुआ कि गंव ई राम 5 दिन तक होटल में पहरेदारी का काम करेगा।
- मैनेजर ने उससे दूध आदि सामान का बिल्ली से रात को ध्यान रखने को कहा। रात को दो बार बिल्ली की वजह से बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनकर तीसरी बार गंवई राम ने गुस्से में आकर अपनी लाठी फेंक कर मारी और गहरी नींद में चारपाई पर धम्म से सो गया।

- सुबह जब मैनेजर ने होटल का शटर खोला तो देखा कि एक हट्टा-कट्टा आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा था, जिसके सिर से खून निकल रहा था। जैसे ही मैनेजर गंवई राम को जगाने आगे बढ़ा तो एक आदमी गंवई राम की चारपाई के नीचे बेहोश दबा पड़ा था।
- वे दोनों बेहोश आदमी चोरी करने के इरादे से होटल में घुसे थे। मैनेजर ने होटल के मालिक और पुलिस को तुरंत खबर कर उन्हें वहां बुला लिया।
- सबने गंवई राम की तारीफ की और उसे शाबाशी दी। होटल के मालिक ने गंवई राम को इनाम दिया और अपने होटल में ही काम पर रख लिया। मैनेजर ने अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए माफी मांगी।
- गंवई राम समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जो लोग उसे इतना सम्मान दे रहे हैं।

1) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें -

- a) चकाचौंध
- b) सरपट
- c) कौतूहल
- d) पगडंडी
- e) डीलडौल
- f) दंग रहना

2) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं -

- a) हक्का-बक्का
- b) महंगाई
- c) अचरज
- d) अजीब
- e) शर्त

3) एक शब्द में उत्तर लिखें -

- a) गंवई राम के परिवार का गुजारा कैसे होता था?
- b) उसके परिवार में कितने लोग थे?
- c) गंवई राम ने कभी किसकी सूरत नहीं देखी थी?
- d) शहर में कौन उसकी लाठी से टकराया?
- e) वेटर कितने रुपए का बिल लेकर आया?

f) वे दोनों बेहोश आदमी असल में कौन थे?

**Exercises from the back of the lesson -**

- मौखिक - all
- लिखित - Q1- all  
Q2 - i and iii

**( Do all questions in your exercise copy)**

- लिखित - Q3 and Q4
- व्याकरण से -Q2,4,5

**( Do it in your textbook)**